

Ref No. LIL/SEC/REG30/SE/PB/2024-25

BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
Listing & Compliance Department	Listing & Compliance Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, C-1 Block G,
Dalal Street, Mumbai - 400001	Bandra Kurla Complex,
	Bandra (E), Mumbai – 400051
Security Code : 517206	Symbol: LUMAXIND

Subject: <u>Submission of E-Copies of Newspaper Advertisement regarding Completion of dispatch of Postal Ballot Notice through email only.</u>

r cotar bande Notice timough chian only

Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015("Listing Regulations")

Dear Sir/Ma'am,

Ref:

Pursuant to the provisions of Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith E-copies of the newspaper advertisements, intimating about the completion of dispatch of Postal Ballot Notice electronically to the Members of the Company published on July 03, 2024 in the following newspapers:

1. Financial Express (English- All Edition) and

2. Jansatta (Hindi- Delhi Edition)

The Published E-copies of aforesaid advertisements will also be made available on the website of the Company at www.lumaxworld.in/lumaxindustries.

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking you, Yours faithfully

For **LUMAX INDUSTRIES LIMITED**

RAAJESH KUMAR GUPTA

EXECUTIVE DIRECTOR AND COMPANY SECRETARY

ICSI M.NO. A-8709

Encl.: As stated above



T +91 124 4760000

E lil.ho@lumaxmail.com, lumaxshare@lumaxmail.com



WWW.FINANCIALEXPRESS.COM



KNR CONSTRUCTIONS LIMITED

CIN: L74210TG1995PLC130199 Regd. Office: KNR House, 3rd & 4th Floor, Plot No: 114, Phase-I, Kavuri Hills, Hyderabad - 500033. Ph: 040 -40268759 / 61 /62, Fax: 040-40268760. website : knrcl.com; E-mail : investors@knrcl.com

NOTICE

[For the attention of the Equity Shareholders of the Company] Transfer of Equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund This notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of

the Companies Act, 2013 (the Act) read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the rules) as amended from time to time. The rules interalia provides that shares in respect of which dividend has

not been paid or claimed for seven consecutive years or more, are required to be transferred to the Demat Account of IEPF authority. Complying with the requirements of the rules, the Company has communicated individually to the respective shareholders at their registered address whose shares are due to be transferred in the month of October 2024 to the IEPF Authority (for the unclaimed dividend for the FY 2016-17) and the full details of such shareholders including their folio number or DP ID-Client ID are also made available on the website of the Company www.knrcl.com

In case the Company does not receive any valid claim from the shareholders by 14th September 2024, the Company shall, in order to comply with the requirements as set out in the rules, initiate necessary steps to transfer the shares held by the concerned shareholders to the Demat account of IEPF Authority by the due date as per the procedure stipulated in the Rules and without further notice in the following manner. In case of shareholders holding shares in

Physical form: The Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerialization and transfer of shares to the Demat account of the IEPF authority and upon such issue, the original share certificate(s which are registered in the name of the original shareholders shall automatically stand cancelled and be deemed non-negotiable.

Dematerialized form: The Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in their demat account in favour of the demat account of the IEPF authority. Shareholders may also note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to IEPF authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF authority after following the procedure prescribed under the Rules which are on the website www.iepf.gov.in

For any queries/information on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Link Intime India Private Limited, Unit: KNR Constructions Limited, C-101, 247 park, LBS Mark, Vikhroli (W), Mumbai- 400083. Ph: 022-4918 6000/6270 email: iepf.shares@linkintime.co.in

Place: Hyderabad Date: 02-07-2024

Haritha Varanasi Company Secretary

By order of the Board

DK JAIN

LUMAX

Lumax Industries Limited

CIN: L74899DL1981PLC012804 Regd, Office: 2nd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex. Nangal Raya, New Delhi -110046 Phone: 011 49857832

ebsite: www.lumaxworld.in/lumaxindu **NOTICE OF POSTAL BALLOT TO THE MEMBERS**

Email: lumaxshare@lumaxmail.com:

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108 110 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ("the Rules"), General Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force and Secretarial Standard - 2 on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), and other applicable laws and regulations, if any, the Company has on Tuesday, July 02, 2024 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice through e-mail only to Members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, June 28, 2024 (the "cut-off date") and whose email addresses are registered in the records of Depositories viz. National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and/or with the Company and/or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. KFin Technologies Ltd ("KFIN"), to seek consent/approval of the Members of Lumax Industries Limited ("Company") for the resolution mentioned in the Postal Ballot Notice

In accordance with the above mentioned MCA Circulars, physical copies of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and pre-paid Business Reply Envelope will not be sent to the Members. The communication of assent/dissent of the Members would take place through the remote e-voting system ("E-Voting") only. Any person, who is not a member as on the close of business hours of the cut-off date should treat this notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of KFIN for providing the E-Voting facility to the Members. The detailed procedure of E-Voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors of the Company, by resolution dated June 27 2024 has appointed Mr. Maneesh Gupta, Practicing Company Secretary (FCS 4982), as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through E-voting process in a fair and transparent manner.

All members are, therefore, informed that: Date of completion of dispatch/sending of Notice of Postal Ballot is

- Tuesday, July 02, 2024.
- The e-voting period shall commence on Thursday, July 04, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and end on Friday, August 02, 2024 at 5:00 P.M. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by KFIN thereafter.
- The voting rights of the Members for E-Voting shall be reckoned based on the proportion of the Equity shares held by them in the Paid-up Equity Share Capital of the Company as on the close of the business hours on the cut-off date.
- The Notice of Postal Ballot has also been placed on the website of the Company viz. www.lumaxworld.in/lumaxindustries as well as on website of KFIN viz. https://evoting.kfintech.com.
- If e-mail address is not registered with the Company /Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depositories, please follow the following procedure for registration of email address and for receipt of login ID and password for e-voting:
 - a) Members holding shares in physical mode are requested to register / update their e-mail addresses by writing to KFIN at einward.ris@kfintech.com. b) Members holding shares in dematerialised mode are requested
 - to register/ update their email addresses with their respective Depository Participant(s). After successful registration of the e-mail address, a copy of this

Notice along with the e-voting user ID and password will be sent to the members registered e-mail address, upon request received from the member. In case of any queries, Members may write to lumaxshare@lumaxmail.com. In case of any queries, the Members may refer to the Frequently Asked

- Questions (FAQs) at https://evoting.kfintech.com/public/Faq.aspx or call KFIN on 1800 345 4001 (toll free) or may send an e-mail request to einward.ris@kfintech.com or call at 040-67161524.
- vii. For any grievances in respect of e-voting, Members may contact to:

Mr. Rajeev Kumar KFin Technologies Limited

Unit: Lumax Industries Limited

Phone: 040 67161524 | Email: rajeev.kr@kfintech.com viii. For any grievances in respect of Postal Ballot through E-voting only,

Members may contact to:

Mr. Raajesh Kumar Gupta

Executive Director and Company Secretary Lumax Industries Limited

Place : Gurugram

Date : July 02, 2024

Phone: 0124-4760000 | Email: raajesh.gupta@lumaxmail.com

The results of the Postal Ballot (through E-voting) will be declared announced on or before 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, August 06, 2024 at the Registered Office of the Company. The results of the Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will also be displayed on the Company's website i.e., www.lumaxworld.in/lumaxindustries and on the website of the KFin Technologies Limited (KFIN) viz. https://evoting.kfintech.com. The results will simultaneously be communicated to the Stock Exchanges, where the Company's shares are listed and Registrar and Share Transfer Agent/E-voting Agency.

By Order of the Board For Lumax Industries Limited

Raajesh Kumar Gupta **Executive Director and Company Secretary** Membership No. ACS 8709,



NHPC Limited

CIN: L40101HR1975GOI032564 Regd. Off.: NHPC Office Complex, Sector- 33, Faridabad-121003 (Haryana) India

NOTICE INVITING E-TENDER (PRESS NOTICE) Dated: 28.06.2024

Tender Id: 2024 NHPC 813414 1

Online Bids are invited by NHPC Limited Faridabad, India through International Competitive Bidding in Single Stage -Two Part Bidding Basis (i.e. Part-I: QR + Technical- Bid and Part-II: Financial Bid) from eligible bidders for "Supply of 1200 MW Firm & Dispatchable power (Assured Peak Power Supply) from ISTS connected Renewable Energy Power Projects coupled with Energy Storage System (ESS) on 'anywhere in India' basis under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) with "GREENSHOE OPTION" of additional capacity upto 1200 MW (NHPC-Tranche-VI-FDRE (2024-25)".

Complete NIT and Tender Documents can be downloaded and submitted through the portal https://eprocure.gov.in/eprocure/app. The site can also be viewed through e-procurement corner of NHPC website www.nhpcindia.com and CPP Portal. The last date of submission of online bids is 27.07.2024. For further details, please visit https://eprocure.gov.in/eprocure/app. Bidders shall register themselves on the website to submit their bids. Subsequent amendments, if any, shall be posted only on the aforesaid websites, hence Bidders are advised to visit websites regularly.

Email: contcivil1-co@nhpc.nic.in

General Manager (CC-I)

ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA) LIMITED

CIN:L92140MH1999PLC120516

Registered Office: 4th Floor, A-Wing, Matulya Centre, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013. Tel: 022 6662 0600; 022 6753 6983 Fax: 022 6753 6800. Website: www.enil.co.in; E-mail: stakeholder.relations@timesgroup.com

NOTICE

Notice for passing the Special Resolution by Postal Ballot through Remote e-voting pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013

Members of **Entertainment Network (India) Limited** ['the Company'] are hereby informed that the Company will be communicating the Postal Ballot Notice pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and all other applicable rules made under the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof from time to time) (hereinafter referred to as 'the Act'), Regulation 44 and all other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as 'the Listing Regulations'), read with Ministry of Corporate Affairs ('MCA') General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and other subsequent circulars, the latest being General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, ('MCA Circulars') and subject to other applicable laws and regulations.

The Company will send the Postal Ballot Notice by email to all its Members of the Company who have registered their email addresses with the Company/ KFin Technologies Limited (formerly known as KFin Technologies Private Limited) ('R&TA'/ 'KFinTech') or the Depository Participants. In terms of the MCA Circulars, the Company is sending this Postal Ballot Notice in electronic form only. Hard copy of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot and Members are required to communicate their assent or dissent only through the remote e-voting system. Please note that no physical ballot forms will be acceptable. The instructions for remote e-voting are appended to the Postal Ballot Notice.

The Postal Ballot Notice will be communicated to all the Members whose names appear in the Register of Members/ Beneficiary Position maintained by the Depositories as on Friday, July 5, 2024, being the cut-off date for the purpose of remote e-voting. This Postal Ballot Notice will be available at the Company's website: www.enil.co.in at https://www.enil.co.in/postal-ballot.php and websites of the stock exchanges - BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and at the website of KFin Technologies Limited ('R&TA'/ 'KFinTech') at https://evoting.kfintech.com at the Downloads section.

Voting rights of the Members shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Members and shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the aforesaid cut-off date. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Postal Ballot Notice contains the following Special Resolution: Sr. No. Type of Resolution Brief particulars

Special Resolution | Appointment of Mr. Richard Saldanha (DIN: 00189029) as the Non-Executive Director.

The login ID and password will be provided in the e-mail to enable the Members to use remote e-voting

- (a) The Business is to be transacted by postal ballot through voting by electronic means (remote e-voting) as per the MCA Circulars;
- (b) Date of commencement of remote e-voting: Wednesday, July 10, 2024 at 9:00 A.M. (IST);
- (c) Date of end of remote e-voting: Thursday, August 8, 2024 at 5:00 P.M. (IST);
- (d) Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 P.M. (IST) on Thursday, August 8, 2024; the remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter;
- (e) Members, who have not received e-mail of Postal Ballot Notice may kindly refer to the instructions at below stated para titled as: Manner of registering/updating email addresses.
- (f) Person responsible to address the queries/grievances connected with the voting by postal ballot through voting by electronic means (remote e-voting): Ms. C. Shobha Anand- Deputy Vice President, KFin Technologies Limited, ('R&TA'/ 'KFinTech') [Unit: Entertainment Network (India) Limited], Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032. E-mail ID: evoting@kfintech.com, Contact No. 040-67162222; Toll Free no.: 1800-309-4001. In case of any query pertaining to e-voting, the Members are requested to refer to the detailed procedure on e-voting furnished separately to vote through electronic mode. In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help and FAQ's section of https://evoting.kfintech.com (KFinTech's website) or download User Manual for Shareholders available at the Downloads section of https://evoting.kfintech.com or e-mail to evoting@kfintech.com or contact Ms. C. Shobha Anand on 1800-309-4001 (toll free number). For casting votes, members are requested to read the instructions. The Postal Ballot Notice dated June 27, 2024 will be emailed, along with the procedure for remote e-voting, to the members and same will be available on the website of the Company at www.enil.co.in [url: http:// enil.co.in/postal-ballot.php] and at website of KFinTech at https://evoting.kfintech.com and websites of the stock exchanges - BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock
- Exchange of India Limited at www.nseindia.com. (g) Day, date, time and venue of declaration of results and link of the website where such results will be displayed: The results of voting by means of Postal Ballot through Remote E-voting shall be declared on or before Friday, August 9, 2024 by 11.00 p.m. IST and will be displayed along with the Scrutiniser's Report at the Registered as well as Corporate Office of the Company, communicated to the Stock Exchanges and would also be uploaded on the Company's website: www.enil.co.in at https://www.enil.co.in/postal-ballot.php and on the website of KFinTech: https://evoting.kfintech.com

Manner of casting vote through remote e-voting:

- The Members, whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners as on Friday, July 5, 2024 (cut-off date) are entitled to vote on the Resolution set forth in the Postal
- Detailed procedure for remote e-voting has been mentioned in the Postal Ballot Notice (Note nos. 11 to 17) and same will be available at the website of the Company at www.enil.co.in [url:
- http://enil.co.in/postal-ballot.php] and at website of KFinTech at https://evoting.kfintech.com Login credential and password details will be emailed to the members at their registered email ID.
- In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help and FAQ's section of https://evoting.kfintech.com (KFinTech's website) or download User Manual for Shareholders available at the Downloads section of https://evoting.kfintech.com or e-mail to evoting@kfintech.com

Manner of registering/updating email addresses:

- Shareholders holding shares in dematerialized mode can register/ update email, mobile details. etc. with their depository participants.
- Shareholders holding shares in physical mode can register/ update their email address, bank details, KYC details and contact details through submitting the requisite ISR-1 form along with the supporting documents, ISR-1 Form can be obtained by the following link; https://ris.kfintech.com/ clientservices/isc/default.aspx
- In case of any queries, member may write to einward.ris@kfintech.com. For casting votes, members are requested to read the instructions stated in the Postal Ballot Notice.

By Order of the Board of Directors

For **Entertainment Network (India) Limited** Sd/-

EVP- Compliance & Company Secretary

Mehul Shah

Place: Mumbai

Date: July 2, 2024


New Delhi

(FCS no- F5839)



Place: Mumbai





NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING 49TH ANNUAL GENERAL MEETING

DABUR INDIA LIMITED

CIN: L24230DL1975PLC007908 Regd. Off: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002 Phone: 011-23253488; Fax: 011-23222051

Website: www.dabur.com, Email for investors: investors@dabur.com

Notice is hereby given that the Forty-Ninth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through

Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Thursday, August 8, 2024 at 3:00 **P.M. IST**, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 (collectively referred to as "relevant circulars"), without the physical presence of members at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM only. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of guorum under Section 103 of the Act. In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Integrated Annual Report 2023-24, will be sent only by email

to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at **www.dabur.com** and on the website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia. com, respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFin"), at https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx. Physical copies of the Notice of AGM and Integrated Annual Report 2023-24 shall be sent to those shareholders who request for the same by writing to the Company/KFin. Notice pursuant to Section 91 of the Act and Regulations 42 & 47 of the Listing Regulations is hereby given that the Register of

Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, July 22, 2024 to Friday, July 26, 2024 (both days inclusive). The cut-off date is July 19, 2024 for ascertainment of members for entitlement of final dividend on equity shares of the Company for the financial year 2023-24 if approved by the members in the AGM scheduled for August 8, 2024. Manner of registering / updating email addresses for obtaining Notice of AGM and Integrated

Annual Report 2023-24 and/or login credentials for joining the AGM through VC/ OAVM including e-voting Members holding shares in physical form and who have not registered their email addresses with the Company, are requested to update the same by submitting a duly filled and signed Form ISR-1 along with self-attested copy of the

- PAN Card, and self-attested copy of any document (eg. Aadhaar Card, Driving License, Voter Identity Card, Passport) in support of the address of the Member, to KFin Technologies Limited at Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad- 500 032, Telangana, India.
- Members holding shares in Demat form are requested to register/ update their email addresses with their depository participant(s).

Manner of casting vote(s) through e-voting and joining the AGM

- (a) Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").
- (b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of AGM.
- (c) The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. (d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company / KFin / Depository
- Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM. (e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC / OAVM.

Manner of registering mandate for receiving Dividend directly in Bank accounts:

Physical Holding: Members may send following details / documents by email to the Company at investors@dabur.com or to KFin at einward.ris@kfintech.com scanned copy of duly filled and signed Form ISR-1 alongwith necessary documents for updation of KYC. The format of Form

ISR-1 is available on company's website **www.dabur.com** Demat Holding: Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their Bank details with their Depository Participant(s).

As mandated by SEBI, Shareholders shall be paid dividend only through electronic mode. Hence, Shareholders are

requested to update their KYC (including Bank) details at the earliest in the manner prescribed above. Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. For more information please refer Note No. 13, of the Notice of AGM, which shall be sent in due course.

Date: 02.07.2024 Place: New Delhi

For Dabur India Limited A. K. Jain **EVP (Finance) & Company Secretary**

SHRIRAM FINANCE LIMITED

(Formerly known as Shriram Transport Finance Company Limited) Corporate Identity Number (CIN): L65191TN1979PLC007874

SHRIRAM

Corporate Office: Wockhardt Towers, Level-3, West Wing, C-2, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051 Registered Office: Sri Towers, Plot No. 14A, South Phase, Industrial Estate, Guindy,

Chennai - 600 032, Tamil Nadu, India Tel No: +91 44 4852 4666 Fax: +91 44 4852 5666

Website: www.shriramfinance.in Email id: secretarial@shriramfinance.in

45TH ANNUAL GENERAL MEETING OF SHRIRAM FINANCE LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), BOOK CLOSURE AND DIVIDEND

Notice is hereby given that the 45th Annual General Meeting ('AGM') of Shriram Finance Limited ('the Company') is scheduled to be held on Tuesday, July 30, 2024 at 02:00 p.m. (IST), through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence of the Members at a common venue, in compliance with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No.20/2020 dated May 05, 2020, Circular No.02/2021 dated January 13, 2021, Circular No.19/2021 dated December 08, 2021, Circular No.21/2021 dated December 14, 2021, Circular No.02/2022 dated May 05, 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No.09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), to transact the Ordinary and Special business as set out in the Notice dated June 1, 2024 of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

- 1. In compliance with MCA Circulars and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167 dated October 7, 2023 ('SEBI Circular'), the Annual Report for F.Y. 2023-24 also containing Notice of the AGM will be sent by email only to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent, Integrated Registry Management Services Private Limited ('RTA') / Depository Participant(s) (DPs). The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide above mentioned MCA Circulars and SEBI Circular.
 - Any Member who wishes to obtain hard copy of the Annual Report can send a request for the same at email id: secretarial@shriramfinance.in mentioning Folio No./ DP ID and Client ID.
- Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for F.Y.2023-24 will also be made available on the Company's website at www.shriramfinance.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at https://www.evotingindia.com
- Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely ('remote e-voting') by Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.shriramfinance.in and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com. The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their votes by remote e-voting will be able to vote at the AGM.
- The login credentials for casting votes through remote e-voting shall be made available through email for non-individual Members. Individual Members who are holding shares in National Securities Depository Limited ('NSDL') and CDSL should login through the websites of NSDL and CDSL, as the case may be, to cast their votes during remote e-voting period. Members who have not updated their email ID in the Demat account / Folio may get their email address and mobile number registered by sending an email to the Company/RTA at: secretarial@shriramfinance.in/einward@integratedindia.in
- For VC/OAVM meeting, the Members should login at www.evotingindia.com to participate at the AGM and also to cast vote in case they have not voted during remote e-voting period.
- Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, July 24, 2024 to Tuesday, July 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and payment of final dividend.
- The Board of Directors at its meeting held on April 26, 2024 has recommended a final dividend of Rs.15/per equity share of face value of Rs.10/- each fully paid up(i.e. 150%) for the Financial Year 2023-24. The final dividend, if declared by the Members at the AGM will be paid through electronic mode on or before August 28, 2024 subject to deduction of tax at source to those Members whose names appear on the Register of Members or who will be the beneficial owners of equity shares of the Company as on the Record Date i.e. Tuesday, July 23, 2024.
- Members are requested to update their complete bank account details on or before the Record Date for dividend with their Depositories (where the shares are held in dematerialized mode) and with the Company/ RTA (where the shares are held in physical mode) by sending an email at einward@integratedindia.in.
- Members may note that the Income Tax Act. 1961, as amended by the Finance Act. 2020, mandates that dividend paid or distributed by a Company after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Members. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source (TDS) at the prescribed rates from the dividend to be paid to Members at a time of distribution or payment of Dividend. The TDS rates would vary depending on the residential status of the Members and the documents submitted by them within the time and accepted by the Company in accordance with the applicable provisions of the Income Tax Act, 1961. In this regard, the Company, will be sending email communication to all the Members, having their email ID's registered with the Company/Depositories, explaining the process of withholding tax from dividend paid to the Members at prescribed rates along with the necessary annexures.
- 10. SEBI has made it mandatory for all the Companies to use the bank account details furnished by the Depositories and the bank account details maintained by the RTA for payment of dividend to Members electronically. With effect from April 1, 2024, any payments including dividend in respect of shares held in physical mode shall only be made electronically upon registering the required KYC details.

By Order of the Board of Directors For Shriram Finance Limited

Sd/-**U** Balasundararao **Company Secretary & Compliance Officer**

financialexp.epapr.in

किशोरी को सरेआम चाकू घोंपकर मार डाला

जबलपुर, 2 जुलाई (भाषा)।

मध्यप्रदेश के जबलपुर में कथित रूप से बात नहीं करने पर एक व्यक्ति ने 17 वर्षीय एक लड़की को सरेआम चाकू घोंपकर मार डाला। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। घटना सोमवार शाम ओमती इलाके की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। आरोपी फरार है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार राठौर ने बताया, 'कथित रूप से बात नहीं करने पर गुफरान (20) नाम के युवक ने तमन्ना पर चाकु से कई वार किए।



एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम

CIN: L40101HR1975GOI032564 पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, (हरियाणा)-121003 ई-निविदा आमंत्रण सूचना (प्रेस सूचना)

निविदा आईडी: 2024 NHPC 813414 1 तिथि: 28.06.2024 एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा "भारत के किसी भी स्थान पर 1200 मेगावॉट 'फ़र्म और डिस्पैचेबल' ऊर्जा (assured peak power supply) ऊर्जा संग्रहण प्रणाली के साथ जुड़ी तथा ISTS से जुड़ी नवीनीकरण ऊर्जा की आपूर्ति के लिए टैरिफ बेस्ड कोंम्पैटिटिव बिडिंग के तहत आरई पावर डेवलपर्स का चयन और "ग्रीनशु ऑप्शन" के तहत 1200 मेगावॉट (MW) के अतिरिक्त ऊर्जा आपूर्ति के लिए आर ई पावर डेवलपर्स का चयन (एनएचपीसी—ट्रेंच–VI एफडीआरई 2024–25)" हेतू पात्र बोलीदाताओं से सिंगल स्टेज–टू पार्ट बिडिंग बेसिस (अर्थात भाग–।: तकनीकी – बोली और भाग-।। : वित्तीय बोली) पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ऑनलाइन बोलियां आंमत्रित की जाती है।

सम्पूर्ण बोली दस्तावेज / निविदा दस्तावेज को केन्द्रीय लोक प्रापण (सीपीपी) पोर्टल http:// eprocure.gov.in/eprocure/app. से देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट को सीपीपी पोर्टल एवं एनएचपीसी की वेबसाइट www.nhpcindia.com के ई–प्रोक्योरमेंट कॉर्नर के माध्यम भी देखा जा सकता है। ऑनलाइन बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 27.07.2024 है। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://eprocure.gov.in/eprocure/app देखें। बोली दाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा। बाद के संशोधन, यदि कोई हो, केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर पोस्ट किए जाएंगे, इसलिए बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइटों को देखते रहें।

ई-मेलः contcivil1-co@nhpc.nic.in

महाप्रबंधक (सीसी-।)

DK IAIN

ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1981PLC012804 पंजी: कार्यालय : द्वितीय तल, हरबंस भवन-II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046 **दूरमाय** : 011-49857832 झील : lumaxsharë@lumaxmail.com, वेबसाइट : www.lumaxworld.in/lumaxindustries

सदस्यों के लिए पोस्टल बैलट की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि पोस्टल बैलट नोटिस में वर्णित संकल्प के लिए ल्यूमैक्से इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की सहमति/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 और अन्य सभी लाग् प्रावधानों, यदि कोई है, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन), नियम 2014, के नियम 20 और 22, यथा संशोधित ("नियम") के साथ पठित, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 09 / 2023, दिनांक 25 सितंबर, 2023 और समय-समय पर जारी अन्य संगत परिपन्नों ("एमसीए परिपन्न"), भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 ("सूचीकरण विनियम")-वर्तमान में लाग् इनके कोई भी वैधानिक संशोधनों अथवा पुनः अधिनियमन सहित, तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवालयीन मानदंड-2 (एसएस-2) तथा अन्य लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई है, के अनुसारण में कंपनी ने केवल उन सदस्यों को ई-मेल के जरिए पोस्टल बैलेट नोटिस प्रेषित करने का काम मंगलवार, 02 जुलाई, 2024 को पूरा कर लिया है, जिनके नाम शुक्रवार, 28 जून, 2024 ("कट ऑफ तिथि") को सदस्यों के रजिस्टर / लामार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं और जिनके ई-मेल पतं डिपाजिटरीज अर्थात नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड ("**'सीडीएसएल'**") और / अथवा कंपनी के पास और / अथवा कंपनी रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिन") के रिकार्डस में पंजीकृत हैं।

ऊपर वर्णित एमसीए परिपत्रों के अनुरूप पोस्टल बैलट नोटिस, साथ में पोस्टल बैलट फार्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफ की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी जाएंगी। सदस्यों की सहमति / असहमति की सूचना केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम ("**ई-वोटिंग**") के जरिए प्राप्त की जाएगी। कोई व्यक्ति, जो कि कट-ऑफ तिथि को कारोबार के घण्टे बंद होने के समय सदस्य नहीं है, उन्हें इस नोटिस को केवल सूचनात्मक उददेश्य के लिए मान लेना चाहिए।

कंपनी ने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन की सेवाएं प्राप्त की हैं। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन पोस्टल बैलेट नोटिस की टिप्पणियों में किया गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए संकल्प दिनांक 27 जून, 2024 के जरिए श्री मनीष गुप्ता, प्रेक्टाइजिंग कंपनी सचिव (एफसीएस 4982) को संवीक्षक के तौर पर नियुक्त

अतः सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि:-

 पोस्टल बैलट सूचना डिस्पैच करने/भेजने की समापन तिथि मंगलवार, 02 जुलाई, 2024 है।

ii. ई-वोटिंग प्रक्रिया बृहस्पतिवार, 04 जुलाई, 2024 को 9:00 बजे प्रातः (भा.मा.स.) पर प्रारम्भ होगी और शुक्रवार, 02 अगस्त 2024 को 5:00 बजे अपराह (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान भौतिक या अभौतिक प्रारूप में कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकेंगे। इसके पश्चात रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल केंफिन द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के मताधिकार की परिगणना कट-ऑफ तिथि पर व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात के आधार पर की जाएगी।

पोस्टल बैलट की सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.lumaxworld.in/lumaxindustries एवं केफिन की वेबसाइट अर्थात https://evoting.kfintech.com पर भी अपलोड की जायेगी।

यदि ई-मेल पता कम्पनी/कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट/ डिपॉजिटरीस के साथ पंजीकृत नहीं है तो ई-मेल पता पंजीकृत कराने और ई-वोटिंग हेत् लागिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कृपया निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करें:

a) मौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे einward.ris@kfintech.com पर केफिन को लिखकर अपने ई-मेल पते को पंजीकृत / अद्यतन करा लें।

b) अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत / अपडेट करायें।

ई-मेल पते के सफल पंजीकरण के बाद, ई-वोटिंग यूजर आईडी तथा पासवर्ड सहित यह सूधना सदस्य से प्राप्त निवेदन के पश्चात सदस्यों के ई-मेल पते पर भेज दी जायेगी। किसी पूछताछ के लिए सदस्य lumaxshare@lumaxmail.com पर लिख सकते हैं।

vi. किसी पूछताछ के लिए सदस्य https://evoting.kfintech.com/public/Faq.aspx पर Frequently Asked Questions (FAQs) का संदर्भ ले सकते हैं या केफिन से 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल निवेदन भेज सकते हैं या 040-67161524 पर कॉल कर सकते हैं।

vii. ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी शिकायत के लिए सदस्य निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं:

श्री राजीव कुमार

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यूनिट : ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

दूरभाष : 040 67161524 | ई-मेल : rajeev.kr@kfintech.com

viii. केवल ई-बोटिंग के द्वारा पोस्टल बैलट के सम्बन्ध में किसी शिकायत के लिए सदस्य निम्नलिखित से सम्पर्क करें :

श्री राजेश कुमार गुप्ता

कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : गुरूग्राम

तिथि : 02 जुलाई, 2024

दूरभाष : 0124-4760000 | ई-मेल : raajesh.gupta@lumaxmail.com पोस्टल बैलट के परिणाम (ई-वोटिंग के माध्यम से) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय

पर मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को 5:00 बजे अपराह (भा.मा.स.) अथवा इससे पहले घोषित किया जाएगा। संवीक्षक की रिपोर्ट सहित पोस्टल बैलट के परिणाम कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.lumaxworld.in/lumaxindustries एवं केफिन की वेबसाइट अर्थात https://evoting.kfintech.com पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे। ये परिणाम साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं तथा रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट / ई-वोटिंग एजेंसी को भी सुचित किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से कृते ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड राजेश कुमार गुप्ता कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या ACS 8709

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF INTEGRA SWITCHGEAR LIMITED ("ISL"/"INTEGSW"/"TARGET COMPANY"/"TC")

गुजरात के जुनागढ जिले में भारी बारिश से कई

सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इस कारण करीब 30 गांवों

जूनागढ़, 2 जुलाई (भाषा)।

(Corporate Identification No. L29130GJ1992PLC018684) Regd. Office: 102, Gharonda Appts, Indira Marg. Navapura, Vadodara, Gujarat-390010 Phone No.: +91-265-2831195/2830114; Email id: integra.pankajvora@gmail.com; Website: www.integraindia.com

In compliance with Regulations 3 (1) and 4 read with Regulations 15 of the SEBI

(SAST) Regulations, 2011

This corrigendum to the detailed public statement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Northvale Capital Partners Private Limited (Acquirer) in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") and the SEBI Observation Letter no. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR2/P/OW/2024/ 21173/1 dated June 28, 2024 in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 7,49,216 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers have appeared in Financial

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THAT THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO OFFER:

Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Mumbai

Lakshadeep - Marathi Daily (Mumbai edition) on 20" February, 2024.

 Update in the schedule of Activities: The original and revised schedule of activities is set forth as below:

Activity	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	12.02.2024	Monday	12.02.2024	Monday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	20.02.2024	Tuesday	20.02.2024	Tuesday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	20.02.2024	Tuesday	20.02.2024	Tuesday
Last date of filing DLOF with SEBI	27.02.2024	Tuesday	27.02.2024	Tuesday
Last date for a Competing offer	13.03.2024	Wednesday	13.03.2024	Wednesda
Last date for receipt of comments from SEBI on DLOF	20.03.2024	Wednesday	28.06.2024	Friday
Identified date	22.03.2024	Friday	02.07.2024	Tuesday
Last date for dispatch of Letter of Offer to the Public Shareholders	02.04.2024	Tuesday	09.07.2024	Tuesday
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	05.04.2024	Friday	15.07.2024	Monday
Last date for recommendations from committee of independent directors of the Target Company to the Public Shareholders for this Offer	05.04.2024	Friday	12.07.2024	Friday
Advertisement of Schedule of activities for the Offer, status of statutory, regulatory and other approvals in Newspapers and sending to SEBI, BSE & Target Company	08.04.2024	Monday	15.07.2024	Monday
Date of commencement of the tendering period (Opening of the Offer)	10.04.2024	Wednesday	16.07.2024	Tuesday
Date of closure of tendering period (Closure of the Offer)	25.04.2024	Thursday	30.07.2024	Tuesday
Post Offer Advertisement	02.05.2024	Thursday	06.08.2024	Tuesday
Payment of consideration for the acquired shares	09.05.2024	Thursday	13.08.2024	Tuesday
Final report from Manager to the Offer	16.05.2024	Thursday	21.08.2024	Wednesda

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER NORTHVALE CAPITAL PARTNERS PRIVATE LIMITED

NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED



Navigant

804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059 Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078 Email id: navigant@navigantcorp.com Website: www.navigantcorp.com SEBI Registration No: INM000012243 Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai Date: July 02, 2024

> पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड सीआईएनः L27109UP1985PLC006998 पंजीकृत कार्यालयरू बी.10ए वीआईपी कॉलोनीए सिविल लाइंसए रामपुर 244901, उ.प्र. कापोर्रेट कार्यालय : 201 और 202, द्वितीय तल, रतन ज्योति बिल्डिंग, 18, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली.110008, दूरभाष: . 011. 47631025,26,27, मेल compliances@pmcfincorp.com वेबसाइट: www.pmcfincorp.com वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई.वोटिंग जानकारी तथा बुक क्लोजर

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड (कंपनी) में सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 25 जुलाई, 2024 को पूर्वाह 11.00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से पर आयोजित की जाएगी।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 और इसके बाद इस संबंध में जारी परिपत्र, नवीनतम 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 ('एमसीए परिपत्रों') और और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 07 अक्टूबर 2023 का सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित)के माध्यम वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ तथा बैठक की सूचना शेयरधारकों को संबंधित परिपत्रों के माध्यम से भेजने की आवश्यकता के संबंध में छूट प्रदान की है। इस प्रकार कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के लिए लिंक के साथ 39वीं एजीएम की सूचना मंगलवार, 02 जुलाई, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेज दी है, जिनके ईमेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('रजिस्ट्रार') डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपीएस') के पास पंजीकृत हैं। 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pmcfincorp.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और भागीदार बन सकते हैं, जैसा कि बैठक की सूचना में दर्शाया गया है।

www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

कंपनी एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम www.evoting.nsdl.com के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान कर रही है। एमसीए और सेबी द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से

शेयरधारकों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। एजीएम के लिए मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 और यथासंशोधित कंपनी ;प्रबंधन और प्रशासनद्ध नियम, 2014

के नियम 20 के साथ पिठत अधिनियम, 2013 की धारा 108, एमसी, सर्कुलर के साथ पिठत इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस.२) और सेबी सर्कूलर के अनुपालन में, कंपनी एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म मअवजपदह / देकसण्बवण्पद के माध्यम से अपने सभी सदस्यों को कंपनी के एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ;रिमोट ई.वोटिंद्ध अपने वोट का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश एजीएम नोटिस में दिए गए हैं।

रिमोट ई-वोटिंग स्विधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी: रिमोट ई—वोटिंग आरंभ तिथि और समय सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी)

रिमोट ई—वोटिंग समाप्ति तिथि और समय बुधवार, 24 जुलाई, 2024 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी)त्र

उसके बाद रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा, सदस्यों को 24 जुलाई, 2024 को सायं 5.00 बजे से आगे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1. रिमोट ई—वोटिंग की इस अवधि के दौरान शुक्रवार, 19 जुलाई 2024,की कट.ऑफ तिथि तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के इक्विटी शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे और सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जो कट.ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है,, उसे इस नोटिस को केवल सचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

2. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और इस एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट.ऑफ तिथि पर शेयर रखता है,वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है या (022-48867000/022-24997000) पर कॉल

s. सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए ई–वोटिंग प्रक्रिया सभी व्यक्तिगत डीमैट खाता धारकों के लिए. एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से, उनके संबंधित डीमैट खाते / डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल की वेबसाइट/डीपी की वेबसाइट के माध्यम से सक्षम की गई है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा एक्सेस के लिए अपने संबंधित डीपी के साथ अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें। कृपया एजीएम नोटिस में उल्लिखित विस्तृत प्रक्रिया और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई.वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला हैए वे एजीएम के दौरान और एजीएम के समय उपलब्ध ई.वोटिंग सुविधा अपना वोट डाल सकते हैं। कृपया एजीएम के दौरान सदस्यों को वोट देने के लिए एजीएम नोटिस में उल्लिखित निर्देश देखें। 5. सदस्य रिमोट ई.वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम

4. ई.वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग

3. मैसर्स अनामिका भोला एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (एसीएस 26132/ सीओपी 23474) को एजीएम में रिमोट ई.वोटिंग और ई.वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने और नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के संबंध में परिणामों के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट की घोषणा की जाएगी और बीएसई को सूचित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट www.pmcfincorp.com और एनएसडीएल

में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। एजीएम से पहले या उसके दौरान किसी सहायता के मामले में या ई.वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध डाउनलोड खण्ड के तहत उपलब्ध जीम Frequency Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual वित shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800—1020—990/1800—224—430 पर कॉल करें या प्रबंधक

एनएसडीएल सुश्री पल्लवी म्हात्रे को pallavid@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें। बुक क्लोजर: 39वीं वार्षिक आम बैठक के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 19 जुलाई 2024 से गुरुवार, 25 जुलाई 2024 तक (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 02 जुलाई 2024

कृते पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड (कंपनी सचिव)

गुजरात के जूनागढ़ में सड़कें जलमग्न, 30 गांवों का संपर्क ट्रटा

का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इससे मुताबिक, गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण क्षेत्र के दस (एनडीआरएफ) ने एक बयान में कहा कि उसने लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा तालुकों में 24 घंटे की अवधि में 200 मिलीमीटर से है। स्थानीय प्रशासन ने एनडीआरएफ को राहत कार्यों अधिक बारिश हुई, जिसके परिणामस्वरूप निचले के लिए तैनात किया है। स्थानीय अधिकारियों के इलाके जलमग्न हो गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

जुनागढ़ जिले के केशोद में एक दल भेजा है, ताकि संपर्क टूट जाने के कारण फंसे लोगों की मदद की

एयु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट-IV-A नियम 8 (6) के लिए देखें अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्गठन तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्ते व संपठित नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई- नीलामी विक्रय सूचना आमजन को साधारण तथा ऋणी, सहऋणी व जमानतदार को विशेष रूप से एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित बंधक अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा **एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक** लिमिटेड (ए शेड्युल्ड कॉमर्शियल बैंक) के नाम से जात जो कि आगे AUSFB सन्दर्भित किया जावेगा के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया था को ''जैसे हैं जहां है''एवं जो भी है जैसा भी है के आधार पर ई-नीलामी द्वारा निम्न तालिका में दर्शित बकाया राशि एवं भविष्य का ब्याज, लागत व शुल्क की वसुली हेतु विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह सुचित किया जाता है ई-नीलामी वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जावेगी ।

ऋण खाता संख्या/ऋणी/ सह-ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	13(2) नोटिस की दिनांक व राशि	कब्जा दिनांक	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	ई-निविदा जमा कराने की तिथि	ई-नीलामी निविदा खोलने व जमा कराने का स्थान	सम्पर्क सूत्र व संपत्ति विजिट दिनांक
ऋण खाता सं.: L9001060127785911 विरेन्द्र कुमार शर्मा (ऋणी) , श्रीमती पूनम शर्मा (सह-ऋणी),	13 जून 2023 ₹ 1176804/- रुपये ग्यारह लाख छिहत्तर हजार आठ सी चार मात्र 12 जून 2023	07 मार्च 2024	सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 229/31-ए, पहली मॉजल, बिना छत अधिकार के, गली नं 13, गांव-मंडावली, फाजलपुर, दिल्ली-110092, क्षेत्रफल निर्मित 450 वर्ग फीट लेकिन अनुमेय निर्मित 405 वर्ग फीट	र 1170000/- रुपये ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र	₹ 117000/- रुपये एक लाख सत्रह हजार मात्र	14 अगस्त 2024 समय अपरान्ह 2.00 बजे से सार्य 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	12 अगस्त 2024 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा पता:- ए-54, गुलाब बाग, द्वारका मांड, पिल्लर नं. 750 के सामने, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	अमित लोहिया व दिपक जैन, 7340011760 व 9773358234, ई-मेल आई.डी. auctions@au bank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 09 अगस्त 2024
ऋण खाता सं.: L9001060126806972 सेतिया देडसै (ऋणी), पंकज सेतिया (सह-ऋणी), श्रीमती सुनीता सेतिया (सह-ऋणी)	15 सितम्बर 2023 ₹ 2252168/- रुपये बाईस लाख बावन हजार एक सौ अङ्गसठ मात्र 12 सितम्बर 2023	13 मई 2024	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 558/78-84, सम्पत्ति नं. एक्स/1974, दूसरी मंजिल छत स्तर तक, गली नं. 07, राजगढ़ एक्सटेंशन, गांव-घोंडली, इलाका-शाहदरा, दिल्ली क्षेत्रफल 58.52 वर्ग मीटर	र 3410000/- रुपये चौतीस लाख दस हजार मात्र	र 341000/- रुपये तीन लाख इकतालीस हजार मात्र	14 अगस्त 2024 समय अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	12 अगस्त 2024 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाईनेन्स बेंक लिमिटेड, शाखा पता:- ए-54, गुलाब बाग, द्वारका मॉड, पिल्लर नं. 750 के सामने, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	अमित लोहिया व दिपक जैन, 7340011760 व 9773358234, ई-मेल आई.डी. auctions@au bank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 09 अगस्त 2024
ऋण खाता सं.: L9001061124294505 बेबी मिश्रा पुत्र रघुनाथ ठाकुर (ऋ णी), सत्येन्द्र कुमार पुत्र कृष्णा भृषण मिश्रा (सह-ऋणी)	09 नवम्बर 2023 ₹ 156528/- रुपये एक लाख छपपन हजार पाँच सौ अट्ठाईस मात्र 07 नवम्बर 2023	06 मई 2024	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 643, आरजेड-19-ई, पूरी तीसरी मंजिला छत अधिकार के साथ, गली नं. 09, खसरा नं. 643, स्थित गांव-नसीरपुर, इन्द्रा पार्क, पालम कॉलोनी, दिल्ली क्षेत्रफल 57 वर्ग गज	र 1455000/- रुपये चौदह लाख पचपन हजार मात्र	र 145500/- रूपये एक लाख पॅतालीस हजार पॉच सौ मात्र	14 अगस्त 2024 समय अपरान्ह 2.00 बजे से सार्य 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	12 अगस्त 2024 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाईनेन्स बंक लिमिटेड, शाखा पता:- ए-54, गुलाब बाग, द्वारका मोड, पिल्लर नं. 750 के सामने, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	अमित लोहिया व दिपक जैन, 7340011760 व 9773358234, ई-मेल आई.डी. auctions@au bank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 09 अगस्त 2024
ऋण खाता सं.: L9001060125583428 मनोज कुमार पुत्र सुखवीर सिंह (ऋणी), ओमती चंचल देवी पत्नी मनोज कुमार (सह-ऋणी)	16 अगस्त 2022 र 603440/- रुपये छ लाख तीन हजार चार सी चालीस मात्र 12 अगस्त 2022	03 मई 2024	सम्पत्ति स्थित गांव-भारमा, पोस्ट-सैंबावली, जिला-हापुर, उत्तरप्रदेश-201001 क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर	र 750000/- रुपये सात लाख पचास हजार मात्र	र 75000/- रुपये पचहत्तर हजार मात्र	14 अगस्त 2024 समय अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	12 अगस्त 2024 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाईनेन्स बेंक लिमिटेड, शाखा पता:- नं. सी3/67ए, यमुना बिहार, नई दिल्ली-110053	अमित लोहिया व दिपक जैन, 7340011760 व 9773358234, इं-मेल आई.डी. auctions@au bank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 09 अगस्त 2024

(1.) बंधक परिसंपत्ति की ई--नीलामी बिक्री AUSFB सुरक्षित लेनदार द्वारा ''जैसा है, जहां है, ''जैसा है वैसा, ''जो कुछ भी है और'' नो रिकोर्स के आधार पर की जायेगी उक्त सम्पत्ति पर कोई झात प्रभार नहीं है। (2.) ऑनलाइन ई-निलामी की बिक्री में भाग लेने के लिए, बोली दस्तावेज, पैन कार्ड की प्रतियां, कम्पनी और फोटो आईडी, कम्पनी के मामले में बोर्ड रिजोल्युशन, पते का प्रमाण पत्र ईमएडी के साथ, जो आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी के माध्यम से देय है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड MSME AUCTION POOL ACCOUNT के नाम, चालू खाता संख्या 1921201121711599 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED पांचवी एवं छठी मंजिल, सनी बिग जंक्शन एसटीसी खसरा नं. 64 से 67, ग्राम सुखईपुरा, न्यू आतिश मार्केट जयपुर 302020, IFSC कोड : AUBL0002011 में जमा करना आवश्यक है, एक बार ऑनलाइन बोली सबमिट करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। आगे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी यानी auctions@aubank.in पर रदद किए गए चेक की काँपी के साथ आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी की यूटीआर/रेफरेन्स नंबर/डीडी नं. भेजने की आवश्यकता होगी। (3.) सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ई-निलामी की बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने, जानकारी और शर्तों के लिए वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://www.aubank.in/bank-auction अवश्य देखें। और अधिक जानकारी के लिए ई—मेल auctions@aubank.in पर सम्पर्क करें ।

नोट:- यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिये नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि में नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर विक्रय की जाएगी।

स्यानः दिल्ली दिनांकः ०२ जुलाई २०२४

प्राधिकृत अधिकारी एय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

POST OFFER ADVERTISEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OASIS SECURITIES LIMITED

("OSL"/"OASIS"/"TARGET COMPANY"/"TC") (Corporate Identification No. L51900MH1986PLC041499)

Registered Office: Raja Bahadur Compound, Building No. 5, 2nd Floor, 43, Tamarind Lane, Mumbai - 400023; Phone No.: 022-40463500/01; Email id: admin@oasiscaps.com; Website: www.oasiscaps.com Open offer for acquisition of 4,81,000 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the equity and voting share capital of the Target Company

by Mr. Rajesh Kumar Sodhani (Acquirer 1), Mrs. Priya Sodhani (Acquirer 2) and Mr. Gyan Chand Jain (Acquirer 3) (Acquirer 1, Acquirer 2 and Acquirer 3 hereinafter collectively referred to as "Acquirers") This Post offer Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, The Manager to the offer, on behalf of the Acquirers, in

connection with the offer made by the Acquirers in compliance with regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulation, 2011"). The Detailed public statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers has appeared in Financial Express - English

Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Mumbai Lakshadeep - Marathi Daily (Mumbai edition) on 22rd May, 2023. : Oasis Securities Limited

1. Name of the Target Company 2. Name of the Acquirers

7. Details of the Acquisition

3. Name of the Manager to the offer 4. Name of the Register to the offer 5. Offer details

: Mr. Rajesh Kumar Sodhani (Acquirer 1), Mrs. Priya Sodhani (Acquirer 2) and Mr. Gyan Chand Jain (Acquirer 3) : Navigant Corporate Advisors Limited : Cameo Corporate Services Limited

a) Date of Opening of the Offer b) Date of the Closing of the offer 6. Date of Payment of Consideration

: Wednesday, 12" June, 2024 : Wednesday, 26" June, 2024 : N.A. since no shares tendered in open offer

Sr No.	Particulars	Proposed in t	he Offer Document	Actual		
7.1.	Offer Price	Rs. 91 pe	er Equity Share	Rs. 91 per Equity Share		
7.2.	Aggregate number of Shares tendered	4,	81,000	Nil		
7.3.	Aggregate number of Shares accepted	4,	81,000	Nil		
7.4.	Size of the offer (Numbers of shares multiplied by Offer price per share)	Rs. 4	37,71,000	Nil		
7.5.	Shareholding of the Acquirers before Share Purchase Agreement (SPA) and Public Announcement (No. & %)	(0	Nil 0.00%)		Nil 0.00%)	
7.6.	Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement (SPA) Number Rully Diluted Equity Share Capital	13,06,951 (70.65%)		13,06,951 (70.65%)		
7.7.	Shares Acquired by way of Open offer Number Rully Diluted Equity Share Capital	4,81,000 (26,00%)		Nil (0.00%)		
7.8.	Shares Acquired after detailed Public Statement Number of Shares acquired Price of the shares acquired % of the shares acquired	Not Applicable		Not Applicable		
7.9.	Post offer Shareholding of Acquirers Number % Fully Diluted Equity Share Capital	17,87,951 (96.65%)		13,06,951 (70.65%)		
7.10.	Pre and Post Offer Shareholding of Public Shareholders Number Kelly Diluted Equity Share Capital	Pre- Offer 5,43,049 (29.35%)	Post Offer 62,049 (3.35%)	Pre- Offer 5,43,049 (29.35%)	Post offer 5,43,049 (29.35%)	

8. The Acquirers accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the fulfillment of his obligations as laid down by SEBI (SAST) Regulations, 2011.

A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI.

Capitalized terms used in this advertisement and not define herein, shall have same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 30.05.2024.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS MR. RAJESH KUMAR SODHANI, MRS. PRIYA SODHANI AND MR. GYAN CHAND JAIN



Date: July 02, 2024

NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED

804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road,

Andheri East, Mumbai - 400059.

Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078; Email id: navigant@navigantcorp.com Website: www.navigantcorp.com; SEBI Registration No: INM000012243

Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

कैलाश